

बी.एच.डी.सी.-103 / आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता

बी.ए. (सी.बी.सी.एस.)

सत्रीय कार्य  
(जनवरी-2024 तथा जुलाई-2024 सत्र के लिए)

पाठ्यक्रम कोड : बी.एच.डी.सी.-103  
आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता



## सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम कोड : बी.एच.डी.सी.-103

प्रिय छात्र/छात्राओं!

‘आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता’ पाठ्यक्रम में आपको एक सत्रीय कार्य करना है। यह सत्रीय कार्य शिक्षक जाँच सत्रीय कार्य (टी.एम.ए.) है। सत्रीय कार्य के लिए 100 अंक निर्धारित किये गये हैं। उद्देश्य : सत्रीय कार्य का मुख्य उद्देश्य यह जाँचना है कि आपने पाठ्य सामग्री को कितना समझा है और आप स्वयं उसे अपने शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उद्देश्य यह भी है कि अध्ययन के दौरान जो कुछ आपने सीखा और समझा है उसे आलोचनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकें।

निर्देश : सत्रीय कार्य आरंभ करने से पूर्व निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़िए :

1. ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए विस्तृत निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए।
2. अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ के दाँईं सिरे पर अनुक्रमांक, नाम, पूरा पता और दिनांक लिखिए।
3. अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ के मध्य भाग में पाठ्यक्रम का शीर्षक, सत्रीय कार्य संख्या और अपने अध्ययन केन्द्र का उल्लेख कीजिए।
4. उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ निम्न प्रकार से शुरू होगा :

अनुक्रमांक : .....

नाम : .....

पता : .....

पाठ्यक्रम का नाम/कोड : .....

सत्रीय कार्य कोड : .....

अध्ययन केन्द्र का नाम/कोड : .....

दिनांक : .....

5. उत्तर के लिए केवल फुलस्कैप के आकार के कागज़ का इस्तेमाल करें और उन कागज़ों को अच्छी तरह से बाँध लें।
6. प्रत्येक उत्तर के पहले प्रश्न संख्या अवश्य लिखें और अपनी ही लिखावट में उत्तर दें।
7. सत्रीय कार्य पूरा करके जाँच के लिए अपने अध्ययन केन्द्र के संयोजक (Coordinator) के पास निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करा दें।

सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि  
जनवरी 2024 सत्र के लिए : 30 अप्रैल, 2024  
जुलाई 2024 सत्र के लिए : 31 अक्टूबर, 2024

## सत्रीय कार्य के लिए आवश्यक निर्देश

सत्रीय कार्य में आपसे मुख्य रूप से तीन तरह के प्रश्न पूछे गए हैं।

उत्तर देने के लिए आप निम्नलिखित विधि से तैयारी करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा :

1. **अध्ययन** : सबसे पहले सत्रीय कार्य को ध्यान से पढ़िए। फिर इससे संबंधित इकाइयों का अध्ययन कीजिए। अंत में प्रत्येक प्रश्न के संबंध में सभी खास बातें नोट कर लीजिए और उन्हें तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए।
2. **आव्यास** : अपने उत्तर का प्रारूप लिखने से पूर्व नोट की गई बातों पर विचार कीजिए। निबंधात्मक या टिप्पणीप्रक प्रश्नों में आरंभ और उपसंहार का विशेष ध्यान दीजिए। उत्तर के आरंभिक अंश में प्रश्न की संक्षिप्त व्याख्या और अपने उत्तर की दिशा का संकेत अवश्य दे देना चाहिए। मध्य भाग में आप उत्तर का मुख्य भाग आवश्यक विस्तार के साथ क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करें। उपसंहार में उत्तर का सार देना चाहिए।

यह सुनिश्चित कर लीजिए कि :

- क) आपका उत्तर तार्किक और सुसंगत हो,
- ख) वाक्यों और अनुच्छेदों (Paragraphs) के बीच स्पष्ट क्रमबद्धता हो,
- ग) उत्तर सही ढंग से लिखा गया हो तथा जो आपकी अभिव्यक्ति, शैली और प्रस्तुति के पूर्णतया अनुकूल हो।
- घ) उत्तर प्रश्न में निर्धारित शब्दों से अधिक लंबा न हो, और
- ड) आपके लेखन में भाषागत त्रुटियाँ न हों, विशेष रूप से मात्रा और व्याकरण संबंधी गलतियों से बचें।

1. **प्रस्तुति** : जब आप अपने उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट हो जाएँ तो उसको साफ और सुंदर अक्षरों में उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए तथा जिन बातों पर आप ज़ोर देना चाहते हैं उन्हें रेखांकित कर दीजिए।
2. **विशेष** : अपने उत्तर की फोटो प्रति/कार्बन प्रति अपने पास अवश्य रखें।

शुभकामनाओं सहित!

**नोट :** याद रखें कि विश्वविद्यालय के नए नियमानुसार परीक्षा में बैठने से पूर्व सत्रीय कार्य जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता**  
**सत्रीय कार्य**  
**(खंड 1 से 4 पर आधारित)**

पाठ्यक्रम कोड : बी.एच.डी.सी.-103  
सत्रीय कार्य कोड : बी.एच.डी.सी.-103 / बी.ए.एच.डी.एच. / 2024  
कुल अंक : 100

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दस अंक के प्रश्नों का उत्तर लगभग आठ सौ शब्दों में तथा पाँच अंकों के प्रश्नों के उत्तर लगभग चार सौ शब्दों में दीजिए।

**भाग-1**

**1. निम्नलिखित पद्याशों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए:** 10X4=40

- (क) हरि जननी मैं बालक तेरा ।  
काहे न अवगुन बकसहु मेरा ॥  
सुत अपराध करत है केते । जननी कै चित रहै न तेते ॥  
कर गहि केस करै जौ घाता । तउ न हेत उतारै माता ॥  
कहै कबीर इक बुद्धि बिचारी । बालक दुखी दुखी महतारी ॥
- (ख) अखियाँ हरि दरसन की प्यासी ।  
देख्यौ चाहतिं कमलनैन कौं, निसि दिन रहतिं उदासी ॥  
आए ऊधौ फिरि गए आँगन, डारि गए गर फाँसी ।  
केसरि तिलक मोतिनि की माला, वृंदावन के वासी ॥  
काहू के मन की कोउ जानत, लोगनि के मन हाँसी ।  
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस कौं, करवत लैहौं कासी ॥
- (ग) धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूतु कहौ, जोलहा कहौ कोऊ ।  
काहूकी बेटीसों, बेटा न ब्याहब, काहूकी जाति बिगार न सोऊ ॥  
तुलसी सरनाम गुलामु है रामको, जाको, रुचै सो कहै कछु ओऊ ।  
माँगि कै खैबो, मसीतको सोइबो, लैबोको एकु न दैबैको दोऊ ॥
- (घ) मैंने नाम रतन धन पायौ ।  
बसत अमोलक दी मेरे सतगुरु करि किरपा अपणायो ॥  
जनम जनम की पूँजी पाई जग मैं सवै खोवायो ।  
खरचै नहिं कोई चौर न ले वे दिन-दिन बढ़त सवायो ॥  
सत की नाँव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरि आयो ।  
मीरां के प्रभु गिरधर नागर हरखि हरखि जस गायो ॥

## **भाग—2**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 2. अमीर खुसरो की भाषागत विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए   | 10                |
| 3. कबीर के राम के स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए।   | 10                |
| 4. निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए :<br>(क) जायसी की भक्ति<br>(ख) सूरदास की कविता में वात्सल्य | $5 \times 2 = 10$ |

## **भाग—3**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 5. सतसई परंपरा और 'बिहारी सतसई' पर प्रकाश डालिए।  | 10                |
| 6. मीराबाई अपने समय के पुरुष संत कवियों से किस प्रकार भिन्न हैं, स्पष्ट कीजिए।  | 10                |
| 7. निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए :<br>(क) रहीम के काव्य में लोक जीवन<br>(ख) घनानंद की कविता में प्रेम और सौंदर्य | $5 \times 2 = 10$ |